



मा.स.वि.म.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

मूल्यांकन में उत्कृष्टता

प्रेस विज्ञापि
दिनांक: 5 जनवरी 2020

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), जनवरी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य)-2020 का आयोजन 11,18,673 पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए दिनांक 6 जनवरी 2020 से दिनांक 9 जनवरी 2020 के बीच करेगा। यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य)-2020 केवल “कंप्यूटर आधारित परीक्षा” (CBT) मोड में निम्न विवरणानुसार आयोजित की जाएगी:

- बी.ई./बीटेक केवल “कंप्यूटर आधारित परीक्षा” (CBT) मोड में।
- बी.आर्क. : गणित – (भाग I), अभिक्षमता परीक्षा – (भाग II) केवल “कंप्यूटर आधारित परीक्षा” (CBT) मोड में और ड्राइंग परीक्षा – (भाग III) केवल “कागज-कलम” (ऑफलाइन) मोड में आयोजित की जाएगी।
- बी.प्लानिंग: गणित – (भाग I), अभिक्षमता परीक्षा – (भाग II) और प्लानिंग – (भाग III) केवल “कंप्यूटर आधारित परीक्षा” (CBT) मोड में।

लिंग एवं श्रेणीवार पंजीकृत उम्मीदवारों का विवरण

अ. बी.ई./बीटेक 567 केंद्रों पर:

	सामान्य	ईडब्लूएस	एस सी	एसटी	ओ बी सी	पूर्णांक (दिव्यांग)
पुरुष	247468	59350	60882	24476	246043	638219(2269)
महिला	111128	25295	24374	9747	112494	283038(574)
समलैंगिक	1	--	1	---	2	4(---)
पूर्णांक	358597	84645	85257	34223	358539	921261* (2843)

* भारत के बाहर 09 शहरों में 1006 उम्मीदवार शामिल हैं

(आ) बी.आर्क: 345 केंद्रों पर

	सामान्य	ईडब्लूएस	एस सी	एसटी	ओ बी सी	पूर्णांक (दिव्यांग)
पुरुष	26618	7162	8463	4347	26845	73435(334)
महिला	25463	6094	5010	2387	26019	64973(130)
समलैंगिक	--	--	1	---	--	1(---)
पूर्णांक	52081	13256	13474	6734	52864	138409* (464)

* भारत के बाहर 09 शहरों में 127 उम्मीदवार शामिल हैं

(इ) बी.प्लानिंग: 327 केंद्रों पर

	सामान्य	ईडब्लूएस	एस सी	एसटी	ओ बी सी	पूर्णांक (दिव्यांग)
पुरुष	13620	2193	4208	2011	11155	33198(181)
महिला	11255	1346	2145	1093	9965	25804(53)
समलैंगिक	--	--	1	---	--	1(---)
पूर्णांक	24875	2539	6354	3115	21120	59003* (234)

* भारत के बाहर 08 शहरों में 62 उम्मीदवार शामिल हैं

परीक्षा 231 शहरों (भारत के बाहर 09 शहर बहरीन, कोलम्बो, दोहा, दुबई, काठमांडू, मस्कट, रियाध, शारजाह एवं सिंगापुर) के 567 केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य)-2020 परीक्षा पूरी तरह से दूसरी बार “कंप्यूटर आधारित परीक्षा” (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी।

बी. आर्क और बी प्लानिंग परीक्षा कल 6 जनवरी 2020 को 02 शिफ्टों में आयोजित की जा रही है। 138409 उम्मीदवार 345 केंद्रों पर बी आर्क के लिए और 327 केंद्रों पर बी. प्लानिंग के लिए 59003 उपस्थित हो रहे हैं।

परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं:

- एक नियंत्रण कक्ष खोला गया है और 30 राज्य समन्वयक, 240 सिटी समन्वयक और 600 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।
- सभी परीक्षा केंद्रों पर तृतीय पक्ष ऑडिट पूर्ण हो चुका है।

- इ) सभी परीक्षा केंद्रों में लाइव सीसीटीवी निगरानी शुरू हो गई है ताकि परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। एनटीए, में स्थित कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों को दूरस्थ स्थान पर लाइव देखने और सीसीटीवी सिस्टम रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की गई है। प्रति पाली में कुल 9500 कैमरे लगाए गए हैं।
- ई) ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष रूप से 4000 से अधिक परीक्षण अभ्यास केंद्रों का एक नेटवर्क, जनवरी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य)-2020 के उम्मीदवारों की सहायता के लिए मुफ्त अभ्यास सत्र चला रहा है।
- उ) जैमर्स: मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करते हुए धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सभी केंद्रों में जैमर स्थापित किए गए हैं। सभी 08 पालियों में प्रति पाली में लगभग 4,600 जैमर लगाए गए हैं।

परीक्षार्थियों को परीक्षा के उच्चतम स्तर तक सुचारू रूप से आयोजन होने का विश्वास दिलाते हुए एनटीए परीक्षा के एक व्यवस्थित संचालन के लिए सभी हितधारकों के सहयोग का अनुरोध करता है।